

तुरंत रिलीज के लिए

फैसिलिटीज को सुरक्षित रूप से दुबारा खोलने और सिटी की सेवाओं को दुबारा शुरू करने के लिए सिटी ने चरणबद्ध योजना पर मेयर के वर्किंग ग्रुप की शुरुआत की

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (22 अप्रैल, 2020) – आज, सिटी ने मेयर के वर्किंग ग्रुप (Working Group) की घोषणा की। यह ग्रुप समुदाय के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लगातार प्राथमिकता देते हुए, सिटी की फैसिलिटीज को संभावित तौर पर दुबारा खोलने और प्रभावित प्रोग्रामों और सेवाओं को धीरे-धीरे दुबारा शुरू करने के लिए, विस्तृत योजनाबद्ध प्रक्रिया शुरू करेगा।

रीजनल काउंसलर मार्टिन मेडेइरोस (Martin Medeiros) के नेतृत्व में और ब्रैम्पटन एमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफिस (Brampton Emergency Management Office) की सलाह से, वर्किंग ग्रुप, सिटी की फैसिलिटीज को सुरक्षित और सोचे-समझे तरीके से दुबारा खोलने पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह ग्रुप, चरणबद्ध दुबारा शुरुआत के दौरान खास COVID-19 (सी.ओ.वी.आई.डी.-19) टास्क फोर्सिज का मार्गदर्शन करने के लिए प्रक्रियाओं के बारे में सलाह देगा, ताकि निवासियों, कारोबारियों और कर्मचारियों को आवश्यक सहायता मिलती रहे। यह ग्रुप, सरकार के अलग-अलग विभागों, स्पोर्ट्स और आर्ट्स ग्रुप्स और रेजिडेंट एसोसिएशंस की सुरक्षा संबंधी जरूरतों और सही नतीजों के बारे में, उनके साथ प्रभावित लोगों के परामर्शों के बारे में विचारविमर्श करेगा।

रीजन ऑफ पील (Region of Peel) के लिए ह्यूमैन सर्विसिज (Human Services) के चेयर के तौर पर, काउंसलर मेडेइरोस और वर्किंग ग्रुप, पील पब्लिक हेल्थ (Peel Public Health), ओनटैरियो और कॅनेडा सरकार की सलाह के मुताबिक काम कर रहे हैं। वे सिटी की चार, मेयर की टास्क फोर्सिज (Task Forces) के साथ मिलकर काम करेंगे। ग्रुप, निवासियों और कारोबारी समुदाय से सुझाव लेगा और मेयर को सलाह देगा कि लोगों को सिटी की सेवाओं तक पहुंच कैसे दी जाए, स्वास्थ्य अधिकारियों की सलाह से सेवा संबंधी जरूरी बदलाव कैसे किए जाएं और कारोबार करने के लिए सिटी के लिए नए तरीकों के अवसर कैसे पैदा किए जाएं। ग्रुप, सरकार के अन्य विभागों से कई प्रकार के उपलब्ध फंडिंग अवसरों की भी पड़ताल करेगा, जो सिटी के कामों पर हुए, COVID19 के आर्थिक प्रभावों को कम करने में मदद करेंगे।

इन विवरणों और सलाह को मेयर के साथ साझा किया जाएगा और किसी अगली मीटिंग में सिटी काउंसिल (City Council) इन पर विचार करेगी।

16 मार्च तक, सिटी ने सिटी हॉल (City Hall) सहित, सिटी की फैसिलिटीज बंद कर दी थीं और कुछ प्रोग्रामिंग और कार्यक्रम रद्द कर दिए थे। 24 मार्च को सिटी ऑफ ब्रैम्पटन में एमरजेंसी की स्थिति (State of Emergency) होने की घोषणा की गई थी। उसके बाद और फैसिलिटीज भी बंद की गई थीं। सिटी के कार्यक्रम और त्यौहार 2 जुलाई, 2020 तक रद्द कर दिए गए हैं। इस समय सिटी की फैसिलिटीज अगले नोटिस तक बंद हैं।

बिल्कुल ताज़ा जानकारी और अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs) के लिए, कृपया: www.brampton.ca/COVID19 पर जाएं।

हवाले

“इस सप्ताह के शुरू में, कामों के आगे बढ़ने के बारे में, प्रांत की घोषणा, आशा और कई लोगों की मेहनत, दोनों का संकेत है। मुझे हमारे समुदाय द्वारा सामूहिक कार्रवाई करने के लिए बेहद खुशी है। लेकिन इस वायरस के विरुद्ध हमें अभी और लड़ाई लड़नी होगी। हालांकि हमारा ध्यान अब एमरजेंसी प्रतिक्रिया से लेकर सिटी को दुबारा खोलने पर है, फिर भी हमारी मुख्य प्राथमिकता, हमारे समुदाय का स्वास्थ्य और सुरक्षा है। इसमें हम सभी को मिलकर काम करना पड़ेगा। मैं निवासियों को याद दिलाता हूँ कि कृपया लगातार शारीरिक दूरी कायम रखें और पील पब्लिक हेल्थ की सलाह का पालन करें।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“ब्रैम्पटन के निवासी और कारोबारी मेहनती और किसी भी स्थिति का सामना करने वाले हैं। साथ मिलकर, हम सुरक्षित और चरणबद्ध तरीके से सिटी हॉल को दुबारा खोलने के लिए पूरी योजना बनाएंगे। सिटी हॉल ऐसी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करता है, जिस पर निवासी निर्भर हैं। मेयर का एडवाइजरी ग्रुप सलाह प्रदान करेगा। यह सुनिश्चित करता है कि हम टास्क फोर्सिंग द्वारा दी गई सहायता लगातार प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा, हम हमारी रोजाना की ज़िंदगी में सहायक, सिटी द्वारा प्रदान की जाने वाली कई प्रकार की सेवाओं को दुबारा खोलने के लिए सूझबूझ वाला दृष्टिकोण अपना रहे हैं।”

- मार्टिन मेडेइरोस (Martin Medeiros), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 3 और 4

“सिटी को दुबारा खोलने के लिए एक सावधानी से तैयार की गई योजना की आवश्यकता है। इस योजना में कई बातों का ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही, इसमें हमारे स्वास्थ्य देखभाल विशेषज्ञों की सलाह को प्राथमिकता देना भी जरूरी है। अब इस वर्किंग ग्रुप के बनने से, हमारी टीम को आवश्यक समय मिलेगा, जिससे वह हमारे दृष्टिकोण को अच्छी तरह सोच-विचार कर विकसित कर पाएगी। वह यह सुनिश्चित कर पाएगी कि जब ऐसा करना सुरक्षित हो, तो हम फैसिलिटीज को दुबारा खोलने और कारोबार व प्रोग्रामिंग को दुबारा शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हों।”

- डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोआर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca